



दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

**THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.**

(Govt. of India Undertaking)

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यू इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.

Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.

CIN No. L66000MH1919GOI000526



Phone : 022 2270 8100

022 2270 8400

Website : www.newindia.co.in

Ref. No.: NIACL/CMD\_BoardSectt/2021-22

February 3, 2022

To,

The Manager  
Listing Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Tower  
Dalal Street  
Mumbai 400 001

The Manager  
Listing Department  
The National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> floor, Plot C/1,  
G Block, Bandra- Kurla Complex  
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE – 540769/NSE – NIACL)

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Cutting regarding Notice of Board Meeting to be held on 11th February, 2022**

This has reference to our letter dated 02.02.2021 whereby we informed you that Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, 11th of February, 2022 through Video Conferencing inter alia,

- To consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 31st December, 2021.
- To transact any other matter which the board may deem fit.

The Notice has also been published in the “Financial Express” (English), “Loksatta” (Marathi) and “Jansatta” (Hindi) on 03.02.2022 and the said notice is also available on Company's website at [www.newindia.co.in](http://www.newindia.co.in). A copy of the aforesaid Newspaper cuttings is enclosed.

This is for your information and records.

Thanking You

Yours faithfully

**For The New India Assurance Company Limited**

  


**Jayashree Nair**  
**Company Secretary & Chief Compliance Officer**

# S&P downgrades Future Retail to 'SD' after default

PRESS TRUST OF INDIA  
New Delhi, February 2

**S&P GLOBAL RATINGS** on Wednesday downgraded Future Retail's long-term issuer credit rating from 'CCC-' to 'SD' after the company failed to repay the principal on its debt.

Future Retail failed to make the principal payments due on its restructured domestic bank borrowings on December 31,



2021. The 30-day review period (grace period to pay) allowed by the Reserve Bank of India (RBI) has ended, S&P said in a statement. Principal repayment of about ₹3,500 crore was due on December 31, 2021, on the

company's bank borrowings as part of a one-time restructuring plan implemented by the onshore lenders in April 2021. The company was allowed a review period of 30 days to cure the default.

Future Retail failed to cure the default amid an unsuccessful attempt to monetise its small-format stores and insufficient cash flows to meet the sizable repayment obligation, the rating agency said.

# MyLab Discovery launches speedier Covid test

FE BUREAU  
Pune, February 2

**BIOTECHNOLOGY COMPANY MYLAB** Discovery Solutions on Wednesday launched a new Covid-19 test, CoviSwift, that speeds up the testing time. This is around four times faster than the traditional method of RT-PCR testing, while maintaining accuracy. It can process 16 samples in 40 minutes, from swab to report. The test has been developed and patented by MyLab. CoviSwift comes with a shelf life of 24 months and for the first time in its category, it can be stored at room tempera-

ture, the company said. Hasmukh Rawal, managing director of MyLab, said with this solution they had solved problems associated with RT-PCR testing. RT-PCR test components need to be stored and transported at -20 degrees at all times, but their CoviSwift tests are stored and transported at room temperature, he said.

"Infrastructure had been a challenge in expanding the reach of RT-PCR in India. RT-PCR labs need to have special medical grade clean rooms. But this Point of Care (POC) test can be done in a regular lab in hospitals or even makeshift labs. So

RT-PCR testing could now go to the small towns and villages where cold chains are not available or in places where electricity is not continuously available," Rawal said.

MyLab said CoviSwift was the world's first high-throughput POC testing solution for Covid-19 that would enable small labs and collection centres to carry out Covid-19 testing. It was now possible to increase testing capacity in India from 3,000 labs to 60,000 labs. CoviSwift's accuracy and sensitivity made it suitable for airports, hospitals and universities, the company said.

# Zydus Cadila starts supplies of Covid vaccine to govt

**ZYDUS CADILA** ON Wednesday announced that the company had started supplies of its Covid-19 vaccine, ZyCoV-D, to the Government of India. The group is also planning to make the vaccine available in the private market.

The first consignment of its Covid-19 vaccine was supplied against the government order from the newly-commissioned Zydus Vaccine Technology Excellence Centre at the Zydus Biotech Park in Ahmedabad. The vaccine will be priced at ₹265 per dose and the applicator being offered at ₹93 per dose excluding taxes. The vaccine is a three-dose one administered intradermally using the painless PharmaJet, a needle-free system, Tropis, on Day 0, Day 28 and Day 56.

Zydus said it had also entered into a definitive agree-

ment with Shilpa Medicare Limited, a contract-manufacturing organisation to produce doses of ZyCoV-D. The company also entered into an agreement with Enzychem Lifesciences from Republic of Korea for the manufacturing license and technology transfer for the Plasmid DNA Vaccine. **FE BUREAU**

# Domestic two-wheeler sales dip 21% in Jan: Icr

**DOMESTIC TWO-WHEELER** sales saw a 21% year-on-year decline in January, even as the segment registered a 14% sequential growth in domestic wholesale volumes, while the passenger vehicle wholesale volumes fell marginally by 3% year-on-year, credit ratings agency ICRA said on Wednesday.

The two-wheeler sales numbers are based on the data released by six major original

equipment manufacturers, ICRA said. In January 2022, domestic wholesale PV volumes at 2.95 lakh units represented

around 16% growth on a sequential basis, said Rohan Kanwar Gupta, V-P & sector head - corporate ratings, ICRA. **PTI**

FE BUREAU  
Pune, February 2

**BIOTECHNOLOGY COMPANY MYLAB** Discovery Solutions on Wednesday launched a new Covid-19 test, CoviSwift, that speeds up the testing time. This is around four times faster than the traditional method of RT-PCR testing, while maintaining accuracy. It can process 16 samples in 40 minutes, from swab to report. The test has been developed and patented by MyLab. CoviSwift comes with a shelf life of 24 months and for the first time in its category, it can be stored at room tempera-

ture, the company said. Hasmukh Rawal, managing director of MyLab, said with this solution they had solved problems associated with RT-PCR testing. RT-PCR test components need to be stored and transported at -20 degrees at all times, but their CoviSwift tests are stored and transported at room temperature, he said.

"Infrastructure had been a challenge in expanding the reach of RT-PCR in India. RT-PCR labs need to have special medical grade clean rooms. But this Point of Care (POC) test can be done in a regular lab in hospitals or even makeshift labs. So

RT-PCR testing could now go to the small towns and villages where cold chains are not available or in places where electricity is not continuously available," Rawal said.

MyLab said CoviSwift was the world's first high-throughput POC testing solution for Covid-19 that would enable small labs and collection centres to carry out Covid-19 testing. It was now possible to increase testing capacity in India from 3,000 labs to 60,000 labs. CoviSwift's accuracy and sensitivity made it suitable for airports, hospitals and universities, the company said.

**DELHI JAL BOARD DELHI SARKAR**  
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T)/A.C.E.(M)-4**  
**LUCKNOW ROAD, TIMAR PUR, DELHI-110054.**  
**Short NIT. No.74 (Item no.1 to 9) (2021-22) E.E.(T)/A.C.E.(M)-4.**

S. No.	Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Date of release of tender in e-procurement solution	Earnest Money	Tender fee (Non-refundable)	Last date/time of receipt of tender through e-procurement solution
1	Improvement of water supply by replacement of old deteriorated 8 inch Dia AC Water line into 8 inch Dia DI Water line in D-Block Jahangirpuri, Mukundpur Ward No.11(N) Burari Constituency AC-02 under ACE(M)-4. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_1	41,31,346/-	02.02.2022 12 PM onwards	82,700/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
2	Replacement of old, rusted and damaged water connections in ward no 10 (N) Sant Nagar, Burari Constituency under ACE(M)-04. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_2	49,16,930/-	02.02.2022 12 PM onwards	96,400/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
3	Replacement of old, rusted and damaged water connections in ward no 11 (N) Mukundpur, Burari Constituency under ACE(M)-04. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_3	49,46,225/-	02.02.2022 12 PM onwards	99,000/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
4	Providing laying of water line network at Swaroop Vihar Extension in AC-02 under ACE(M)-04. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_4	69,57,028/-	02.02.2022 12 PM onwards	1,39,200/-	1000/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
5	Improvement of Sewerage system in EE-Block Jahangirpuri by Replacement / Realignment of under size 350mm dia. Sewer line into 630mm OD HDPE sewer pipe from MCD pump house / waste dumping yard to DJB sewage pump house station on kushal cinema road Jahangirpuri, Mukundpur ward no-11(N) Burari Constituency AC-02 under ACE(M)-4. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_5	30,92,254/-	02.02.2022 12 PM onwards	61,900/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
6	Replacement of old damaged sewer line from H.No.165 to 222 and 108 and back side of Om Mandir in Dnaka village GTB Nagar ward in Timarpur AC-03 under ACE(M)-4. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_6	26,13,770/-	02.02.2022 12 PM onwards	52,300/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
7	Improvement of 800 mm dia and 700 mm dia Peripheral sewer lines of Adarsh Nagar Constituency AC-04 under ACE(M) 04. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_7	37,94,528/-	02.02.2022 12 PM onwards	75,900/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
8	Restoration of settled North Trunk Sewer line of 1200 mm dia at MCD Khata, Green Belt, Mukherjee Nagar in AC-03 under ACE (M)-4. (Re-invite). I.D 2022_DJB_215836_8	46,67,293/-	02.02.2022 12 PM onwards	93,400/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.
9	PPL 150 mm & 100 mm dia water line in extended portion of AB and AI-Block in Armit Vihar in AC-02 under ACE(M)-04. I.D 2022_DJB_215836_9	40,64,435/-	02.02.2022 12 PM onwards	81,300/-	500/-	Technical bid will be received 14.02.2022, 3:00 PM & opening of Financial bid after completion of technical bid & confirmation of EMD from Bank.

Further details in this regard can be seen at <https://govtprocurement.delhi.gov.in>

Sd/-  
(S.K. SINGH)  
EXECUTIVE ENGINEER-T(M)-4

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

# Dabur Q3 net rises 2.19% to ₹504 crore, net sales up 7.8%

**HOMEGROWN FMCG MAJOR** Dabur India on Wednesday reported a 2.19% increase in consolidated net profit to ₹504.35 crore for the quarter ended December 2021.

The company had posted a consolidated net profit of ₹493.50 crore in the October-December quarter a year ago, Dabur India said in a BSE filing. Its revenue from operations rose by 7.8% to ₹2,941.75 crore during the quarter under review as against ₹2,728.84 crore in the corresponding quarter of the previous fiscal.

Commenting on the results, Dabur India CEO Mohit Malhotra said, "The overall operating environment remained challenging throughout the quarter with unprecedented inflation of 13% and subdued consumer sentiments. We have mitigated the impact of inflation partially through calibrated price increases and cost-saving initiatives." Despite these headwinds, Dabur remained focussed on rolling out consumer-centric innovation that expanded the total addressable market, he added.

# Tata Consumer Q3 net profit jumps 22.2%

**TATA CONSUMER PRODUCTS (TCPL)** on Wednesday reported a 22.19% jump in its consolidated net profit to ₹290.07 crore for the third quarter ended December 31, 2021, helped by volume-driven growth in the domestic market.

The company had posted a net profit of ₹237.38 crore in the corresponding quarter last year, said TCPL, earlier known as Tata Global Beverages, in a BSE filing.

Its revenue from operations during October-December 2021 rose 4.52% to ₹3,208.38 crore



(Rs. in Crore)

## UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2021 (Un-Audited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2020 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	909.01	2,281.59	841.58
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	97.02	234.60	135.06
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	97.02	234.60	135.06
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	67.35	169.41	100.14
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	69.05	174.28	107.89
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- each)	24.39	24.39	24.39
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet	1,159.90 (As at 31.03.2021)	1,159.90 (As at 31.03.2021)	895.35 (As at 31.03.2020)
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualized)-			
	Basic:	13.81	34.73	20.53
	Diluted:	13.81	34.73	20.53

Note:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly and Nine Months period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and Nine months period ended Financial Results are available on the Company website [www.sheelafam.com](http://www.sheelafam.com) and on the website of stock exchanges [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- The above consolidated limited reviewed Financial Results have been reviewed by the Audit Committee of the Board in its meeting held on February 02, 2022 and approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on February 02, 2022. Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have carried out the Limited Review and the Limited Review Report has been approved by the Board.
- Previous quarter/year figures have been regrouped/restated wherever necessary.
- Key Standalone financial information given below:

(Rs. in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2021 (Un-Audited)	Nine Months Ended 31.12.2021 (Un-Audited)	Quarter Ended 31.12.2020 (Un-Audited)
1	Total Income from Operations	673.38	1,615.86	620.76
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	83.74	203.74	104.27
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	59.35	149.95	77.99

For Sheela Foam Limited

Sd/-  
(Rahul Gautam)  
Chairman and Managing Director

Noida, February 2, 2022

**SHEELA FOAM LIMITED** Regd. office: 604 Ashadeep, 9 Hailey Road, New Delhi, 110001 • Corporate Office : Sleepwell Tower, Plot No.- 14, Sector-135, Noida, Gautambudh Nagar (U.P.) - 201301 Tel: 0120-4162200, Fax: 0120-41622825 • CIN L74899DL1971PLC005679



**EK KOSHISH, MAA JAI SA AARAM DENE KI...**



## Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Three and Nine Months ended 31.12.2021

₹ in Crore

Sl. No.	Particulars	Consolidated			
		Three Months ended 31.12.2021 Unaudited	Three Months ended 31.12.2020 Unaudited	Nine Months ended 31.12.2021 Unaudited	Year ended 31.03.2021 Audited
1	Total Income from Operations	1,285.68	1,259.84	3,820.06	4,727.44
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	191.76	248.62	678.52	1,011.22
3	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	100.00	143.28	405.40	593.93
4	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	99.99	143.27	405.38	556.06
5	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional Items)	65.76	118.43	289.22	421.12
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	64.68	114.19	281.52	407.61
7	Paid-up Equity Share Capital (Face Value ₹ 5/- per Share)	58.85	58.85	58.85	58.85
8	Reserves (excl. Revaluation Reserve)	2,273.09	1,881.14	2,273.09	2,035.70
9	Securities Premium Account	88.65	88.65	88.65	88.65
10	Net Worth	2,331.94	1,939.99	2,331.94	2,094.55
11	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	1,634.05	1,978.57	1,634.05	1,653.11
12	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-
13	Debt-Equity Ratio (in times)	0.70	1.02	0.70	0.79
14	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (Not Annualised)				
	a) Basic :	5.45	9.69	23.78	34.45
	b) Diluted :	5.45	9.69	23.78	34.45
15	Capital Redemption Reserve	25.64	25.64	25.64	25.64
16	Debtenture Redemption Reserve	37.50	60.40	37.50	37.50
17	Debt Service Coverage Ratio (in times)	2.00	2.40	2.49	1.87
18	Interest Service Coverage Ratio (in times)	5.23	5.09	6.23	5.27

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 2<sup>nd</sup> February, 2022. The Auditors of the Company have carried out a "Limited Review" of the same.
- Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) :

Particulars	Three Months ended 31.12.2021	Three Months ended 31.12.2020	Nine Months ended 31.12.2021	Year ended 31.03.2021
Turnover	1209.84	1213.45	3592.75	4459.18
Operating Profit (EBITDA)	162.84	212.46	574.65	864.22
Profit before Tax (Before Exceptional Items)	90.99	127.15	360.37	527.51
Profit before Tax (After Exceptional Items)	90.99	127.15	360.37	496.59
Profit after Tax	59.24	102.31	254.49	363.82

- The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 31<sup>st</sup> December, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on Company's website at [www.jklakshmicement.com](http://www.jklakshmicement.com)

Place: New Delhi  
Date: 2<sup>nd</sup> February, 2022

Vinita Singhania  
(Vice Chairman & Managing Director)



ADMIN OFFICE: NEHRU HOUSE, 4, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI - 110002

REGD. OFFICE : JAYKAYPURAM - 307109, DIST. SIROHI, RAJASTHAN

WEBSITE : [WWW.JKLAKSHMICEMENT.COM](http://WWW.JKLAKSHMICEMENT.COM) | E-mail : [jklc.investors@jklmail.com](mailto:jklc.investors@jklmail.com) | Fax No. 91-011-23222521 | CIN : L74999RJ1938PLC019511



## दिल्ली : कोरोना के 3,028 मामले, 27 मौत

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी गई। बुधवार को कुल 3,028 नए मामले सामने आए। जबकि 27 मरीजों की मौत हुई। इस दौरान संक्रमण दर 4.73 फीसद रही। दिल्ली में बुधवार को 63982 लोगों की कोरोना जांच की गई। हालांकि मंगलवार की तुलना में नए मामलों की संख्या बुधवार को कम रही। दिल्ली सरकार की रपट के अनुसार

1331 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 451 मरीज आक्सीजन के सहारे हैं, जिनमें से 99 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 1037 मरीज घरों में एकांतवास में हैं। वहीं बीते दिन हुई मौत के मामलों को मिलाकर दिल्ली में कुल 25,919 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है।

वहीं राजधानी में अब तक कुल 18,35,979 मरीज संक्रमण की चपेट में आए हैं। इसमें से 17,95,190 मरीज महामारी से उबर चुके हैं। बुधवार को निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 35,961 दर्ज की गई। वहीं 790 लोगों ने हेल्पलाइन पर काल कर मदद मांगी और 1,542 काल एंबुलेंस के लिए किए गए।

## उपराज्यपाल ने शुक्रवार को बुलाई डीडीएमए की बैठक

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद अब दिल्ली में और अधिक राहत के लिए मांग उठनी शुरू हो गई है। दिल्ली के जिम व फिटनेस केंद्र के मालिकों के साथ कारोबारी भी बाजारों में रात्रि कर्फ्यू खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे।

कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आई गिरावट के बाद दिल्ली सरकार लगातार राहत दे रही है। इसी के तहत बाजारों में सम-विषम व्यवस्था और हर सप्ताह होने वाले कर्फ्यू से भी राहत दी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस बार कोशिश यह भी की जा रही है कि दिल्ली सरकार द्वारा चल रहे तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी खोला जाए। माना जा रहा है कि इसकी मदद से बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षण की गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। उधर दिल्ली के बाजार संघों ने सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने या फिर समय बढ़ाए जाने की अपील की है।

## मौसम विभाग ने आज जताई बारिश की संभावना

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

दिल्ली में बुधवार की सुबह हल्के कोहरे के साथ हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने जानकारी दी कि इस दौरान न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो कि मौसम के औसत तापमान से तीन डिग्री अधिक है। जबकि अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री कम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर सूरज व बादलों के बीच आंख-मिचौली का खेल जारी रहा। मौसम विभाग ने गुरुवार से बारिश के आसार जताए हैं। उसके बाद ठंड फिर बढ़ सकती है। आइएमडी ने कहा कि सुबह साफदरजंग वेधशाला में कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 400 मीटर, वहीं पालम वेधशाला में दृश्यता

500 मीटर दर्ज की गई, जो दिन में धूप खिलने के बाद बेहतर हुई। वहीं दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 341 था। मौसम विज्ञानियों ने दिन में हल्का कोहरा छाए रहने और अधिकतम तापमान के 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया था।

## 48 फीसद अभिभावकों ने स्कूल खोलने पर जताई सहमति : सर्वेक्षण

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

लंबे समय से स्कूलों में अप्रत्यक्ष दर से चल रही कक्षाओं के कारण छात्रों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अब कोरोना संक्रमण दर में कमी के बाद 48 फीसद अभिभावक बच्चों के लिए स्कूल खोलने के पक्ष में हैं जबकि 67 फीसद अभिभावक दो फीसद संक्रमण दर होने के

बाद ही स्कूल खुलवाना चाहते हैं। हाल ही में स्कूल खोलने को लेकर लोकल सर्किल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आए हैं। लोकल सर्किल संस्था की तरफ से इस सर्वेक्षण की प्रति उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भेजी गई है ताकि इन तथ्यों को आधार बनाकर ही स्कूलों को खोलने के संबंध में आखिरी निर्णय लिया जा सके।

## जिम व स्पा खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करे दिल्ली सरकार : बिधूड़ी

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 2 फरवरी।

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने राजधानी के जिम और स्पा को तुरंत खोलने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि वह इस बारे में उपराज्यपाल को तुरंत प्रस्ताव भेजे

ताकि जिम और स्पा भी खोले जा सकें। उन्होंने सवाल किया कि जब कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं तो लोगों की सेहत से जुड़े जिम और स्पा को खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक प्रयास क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा कि बाजारों से साप्ताहिक कर्फ्यू और सम-विषम जैसी पाबंदियों को हटाया जा चुका है।

180 08012015 Certified NAAC Accredited with B+ Grade

**SMS Lucknow**

**SCHOOL OF MANAGEMENT SCIENCES Lucknow**

Affiliated to University of Lucknow, Lucknow

School of Management Sciences, Lucknow, offers : BBA, BCA, B.Com(Hons.), B.Com., B.Sc. & B.Voc. (Software Development).

**REQUIRES**

Applications are invited for the following positions:

- Assistant Professors: BCA Program (Nos.-4)
- Eligibility: MCA with NET or Ph.D. (As per UGC ordinance 2009)

Candidates can apply through email: registrar@smslucknow.com latest by 20th Feb., 2022

Campus: 19th KM Stone, Kasimpur Biruha, Sultanpur Road, Lucknow-226501. Ph.: 9451134298, 09792633331, 09506033170

City Office: 2nd Floor, Sky-Hi Chambers, 5-Park Road, Hazratganj, Lucknow-226001. Ph.: 0522-2238116, 2237273

Web: www.smslucknow.com

**बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda**

वसूली विभाग, ईस्ट दिल्ली रीजन  
प्रथम तल, 16, संसद मार्ग,  
बैंक ऑफ बड़ोदा भवन, नई दिल्ली-110001

परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8(6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तिियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(ों) और गारंटर(ों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, को कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों / गारंटरों को प्रत्याभूत - दाता बैंक ऑफ बड़ोदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपए की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अंतिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं पता	अचल संपत्तियों का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया	आरक्षित मूल्य (₹.)		ई-नीलामी तिथि एवं समय	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय	शाखा और सम्पर्क नं.
				घरोहर राशि	न्यूनतम बोली बुद्धि राशि				
1	1. श्री अशोक कुमार और श्रीमती संग 2. मैसर्स श्री राधे कृष्ण प्रोले भदुरे और पता: प्लॉट नं. 424, जागृति एक्सप्रेस, नई दिल्ली-110092 और ई-67, साएय अनारकली, वैस्ट चंदर नगर, दिल्ली-110051 3. मैसर्स आदित्य मोर्टर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. के ले-आउट प्लॉट नं. 10, प्लॉट 20, परमेश टॉवर कॉम. केंद्र, कडकडबूजा, दिल्ली 110092	सम्पत्ति सम्पूर्ण द्वितीय तल बिना छत / टेरेस अधिकार के, जिसका क्षेत्रफल 190.5 वर्ग मी., अर्थात 180 गज और एएसएफ का कवर्ड क्षेत्रफल 112.78 वर्ग मी. अर्थात 1214 वर्ग फीट, रिटल्ट प्लस 4 मंजिला में से, रिहायशी बिल्डिंग, सम्पत्ति नं. 163 पर निर्मित, गडनागर को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. के ले-आउट प्लॉट के अंतर्गत, कॉलोनी जिसे अब चित्र विहार कहते हैं, दिल्ली-110092 में स्थित	₹. 1,72,79,828.70 और दिनांक 31.07.2017 से ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि (3 खाते का बकाया)	₹ 1,36,00,000/-	₹ 13,60,000/-	17-02-2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्थात् 04.00 बजे तक	भौतिक	11-02-2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अर्थात् 02.00 बजे तक	आरओएसएआरबी शाखा श्री मनीष प्रकाश मो. 7275805187

घरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि - 16.02.2022

बैंक के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> & <https://ibapi.in> पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलोपत्रा ऊपर वर्णित सम्पत्ति को समक्ष शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 02-02-2022, स्थान : दिल्ली

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

**KAMDHENU GROUP**

## Continued Momentum

Kamdhenу Limited continues to build its growth momentum driven by cost efficiencies, product development, strong brand equity, large distribution network and diversified product portfolio across both paints and steel business. The Company is on track to enhance its stakeholder value-creation journey.

**KAMDHENU PAS 10000**

**EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021**

(Rs in Lakhs except earning per share)

S. No.	Particulars	(Rs in Lakhs except earning per share)					
		Standalone		Consolidated		Consolidated	
		Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Quarter Ended
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1	Total Income from Operations	22,653.51	18,342.29	22,653.51	18,342.29	58,792.19	58,792.19
2	Net Profit for the period before tax and exceptional items	994.88	964.02	994.77	963.74	2,747.49	2,747.06
3	Net profit for the period after tax and exceptional items	767.89	718.62	767.78	718.34	2,090.76	2,090.32
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	763.97	713.62	763.86	713.34	2,089.53	2,089.09
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	2,693.55	2,693.55	2,693.55	2,693.55	2,693.55	2,693.55
6	Earnings per share in rupees: (Quarterly Not Annualised)						
	- Basic (in Rupees)	2.85	2.68	2.85	2.68	7.76	7.76
	- Diluted (in Rupees)	2.85	2.68	2.85	2.68	7.76	7.76

1 The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors of Kamdhenу Limited at their respective meetings held on 2nd February, 2022. The unaudited financial results for the quarter and nine month period ended 31st December, 2021 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

2 The company continues to monitor the impact of COVID 19 on its business including its impact on customers, supply chain etc. Due care has been exercised on significant accounting judgement and estimates including in relation to recoverability of receivables, inventory and other financial assets based on information available to date while preparing the company's financial results as of and for the quarter and nine month period ended 31st December, 2021

3 The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the company website [www.kamdhenуlimited.com](http://www.kamdhenуlimited.com)

For and on behalf of the Board of Directors of Kamdhenу Limited  
Sd/-  
(Satish Kumar Agarwal)  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00005981

Place: Gurgaon  
Date: 2nd February, 2022

**KAMDHENU PAS 10000**

**KAMDHENU LIMITED** CIN:L27101HR1994PLC092205  
Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002  
Ph.: 91-124-4604500 Email: [kamdhenу@kamdhenуlimited.com](mailto:kamdhenу@kamdhenуlimited.com) Website: [www.kamdhenуlimited.com](http://www.kamdhenуlimited.com)

**KAMDHENU PAINTS**

## INTERIOR EMULSION

**Kamdhenу**

**KAMO Bi-Sheen**

**Velvety**

**Kamorich**

**TOLL FREE: 1800 1800 545**  
[www.kamdhenуpaints.com](http://www.kamdhenуpaints.com)

High Sheen  
Luxurious Smooth Finish  
Low VOC & No Odour  
Stain Resistant  
Anti-Fungal